



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आश्विन 1945 (श10)

(सं० पटना 825) पटना, बृहस्पतिवार, 12 अक्टूबर 2023

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

12 अक्टूबर 2023

सं० : बी1-3-47/2023-99—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के धारा 21 के उपबंधों का अनुसरण में एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना संख्या- 434/बिहार-वि.स./2014 (1) दिनांक 3 नवम्बर, 2014 का अधिक्रमण करते हुए बिहार राज्य सरकार के परामर्श से बिहार राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी के नियुक्ति से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या-434/पूर्व अनु०-1/बिहार-वि.स./2023 (1) दिनांक 06.10.2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001/ दिनांक 6 अक्टूबर, 2023/14 आश्विन, 1945 (शक)

सं० 434/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./2023(1)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों का अनुसरण करते हुए तथा समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434/बिहार-वि.स./2014(1) दिनांक 3 नवम्बर, 2014 का अधिक्रमण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा बिहार सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार के अधिकारियों को, उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथाविनिर्दिष्ट, बिहार राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है।—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
1—वाल्मीकिनगर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेतिया
2—रामनगर (अ०जा०)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगहा
3—नरकटियागंज	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज
4—बगहा	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा
5—लौरिया	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
6—नौतन	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेतिया
7—चनपटिया	उप-विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
8—बेतिया	अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया
9—सिकटा	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नरकटियागंज
10—रक्सौल	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल
11—सुगौली	अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर
12—नरकटिया	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रक्सौल
13—हरसिद्धि (अ०जा०)	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अरेराज
14—गोविन्दगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज
15—केसरिया	उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
16—कल्याणपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चकिया
17—पिपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
18—मधुबन	अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल
19—मोतिहारी	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, मोतिहारी सदर
20—चिरैया	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सिकरहना
21—ढाका	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना
22—शिवहर	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर
23—रीगा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीतामढ़ी सदर
24—बथनाहा (अ०जा०)	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सीतामढ़ी
25—परिहार	उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी
26—सुरसंड	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
27-बाजपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी
28-सीतामढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर
29-रुन्नीसैदपुर	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी
30-बेलसंड	अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसंड
31-हरलाखी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी
32-बेनीपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी
33-खजौली	अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर
34-बाबूबरही	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी
35-बिस्फी	उप विकास आयुक्त, मधुबनी
36-मधुबनी	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी
37-राजनगर (अ०जा०)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर
38-झंझारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर
39-फुलपरास	अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास
40-लौकहा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास
41-निर्मली	अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली
42-पिपरा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल
43-सुपौल	अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल
44-त्रिवेणीगंज (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज
45-छातापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर
46-नरपतगंज	भूमि सुधार उप समाहर्ता, फारबिसगंज
47-रानीगंज (अ०जा०)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया
48-फारबिसगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज
49-अररिया	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया
50-जोकीहाट	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, अररिया
51-सिकटी	उप विकास आयुक्त, अररिया
52-बहादुरगंज	भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज
53-ठाकुरगंज	उप विकास आयुक्त, किशनगंज
54-किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज
55-कोचाधामन	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, किशनगंज
56-अमौर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बायसी
57-बायसी	अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी
58-कसबा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर पूर्णिया
59-बनमनखी (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
60-रूपौली	भूमि सुधार उप समाहर्ता, धमदाहा
61-धमदाहा	अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा
62-पूर्णिया	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया
63-कटिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार
64-कदवा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बारसोई
65-बलरामपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई
66-प्राणपुर	उप विकास आयुक्त, कटिहार
67-मनिहारी (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी
68-बरारी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, कटिहार
69-कोढ़ा (अ०जा०)	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, कटिहार
70-आलमनगर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज
71-बिहारगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
72-सिंहेश्वर (अ०जा०)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा
73-मधेपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
74-सोनवर्षा (अ०जा०)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर सहरसा
75-सहरसा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा
76-सिमरी बख्तियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर
77-महिषी	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, सहरसा
78-कुशेश्वरस्थान (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल
79-गौड़ाबोराम	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिरौल
80-बेनीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर
81-अलीनगर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर
82-दरभंगा ग्रामीण	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा
83-दरभंगा	नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा
84-हायाघाट	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
85-बहादुरपुर	अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, दरभंगा
86-केवटी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर दरभंगा
87-जाले	उप विकास आयुक्त, दरभंगा
88-गायघाट	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर
89-औराई	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
90-मीनापुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर
91-बोचहाँ (अ०जा०)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
92-सकरा (अ०जा०)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
93-कुढ़नी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
94-मुजफ्फरपुर	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर
95-काँटी	अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर
96-बरुराज	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर
97-पारु	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
98-साहेबगंज	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
99-बैकुण्ठपुर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोपालगंज
100-बरौली	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज
101-गोपालगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
102-कुचायकोट	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज
103-भोरे (अ०जा०)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, हथुआ
104-हथुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ
105-सिवान	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, सिवान
106-जीरादेई	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिवान
107-दरौली (अ०जा०)	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान
108-रघुनाथपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान
109-दरौंदा	उप विकास आयुक्त, सिवान
110-बड़हरिया	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान
111-गोरेयाकोठी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज
112-महाराजगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज
113-एकमा	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण
114-मांझी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर छपरा
115-बनियापुर	उप विकास आयुक्त, सारण
116-तरैया	भूमि सुधार उप समाहर्ता, मढ़ौरा
117-मढ़ौरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा
118-छपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा
119-गरखा (अ०जा०)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा
120-अमनौर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण, छपरा
121-परसा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर
122-सोनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर
123-हाजीपुर	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर
124-लालगंज	भूमि सुधार उप समाहर्ता, हाजीपुर
125-वैशाली	उप विकास आयुक्त, वैशाली, हाजीपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
126—महुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ
127—राजापाकर (अ०जा०)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, महनार
128—राघोपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर
129—महनार	अनुमंडल पदाधिकारी, महनार
130—पातेपुर (अ०जा०)	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महुआ
131—कल्याणपुर (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर
132—वारिसनगर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, समस्तीपुर
133—समस्तीपुर	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर
134—उजियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय
135—मोरवा	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पटोरी
136—सरायरंजन	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर
137—मोहिउद्दीननगर	अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी
138—विभूतिपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दलसिंहसराय
139—रोसड़ा (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा
140—हसनपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रोसड़ा
141—चेरिया बरियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल
142—बछवाड़ा	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, तेघड़ा
143—तेघड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा
144—मटिहानी	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेगूसराय
145—साहेबपुर कमाल	अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया
146—बेगूसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय
147—बखरी (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी
148—अलौली (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
149—खगड़िया	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खगड़िया
150—बेलदौर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोगरी
151—परबत्ता	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी
152—बिहपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नवगछिया
153—गोपालपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया
154—पीरपैती (अ०जा०)	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कहलगांव
155—कहलगांव	अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव
156—भागलपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर
157—सुलतानगंज	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर भागलपुर
158—नाथनगर	अपर समाहर्ता—सह—अपर जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
159-अमरपुर	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, बांका
160-धौरैया (अ०जा०)	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बांका
161-बाँका	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका
162-कटोरिया (अ०ज०जा०)	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका
163-बेलहर	उप विकास आयुक्त, बांका
164-तारापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर
165-मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर
166-जमालपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर मुंगेर
167-सूर्यगढ़ा	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, लखीसराय
168-लखीसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय
169-शेखपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
170-बरबीघा	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शेखपुरा
171-अस्थावॉ	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बिहारशरीफ
172-बिहारशरीफ	अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ
173-राजगीर (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर
174-इस्लामपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, हिलसा
175-हिलसा	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा
176-नालन्दा	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा
177-हरनौत	उप विकास आयुक्त, नालन्दा
178-मोकामा	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
179-बाढ़	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बाढ़
180-बख्तियारपुर	उप विकास आयुक्त, पटना
181-दीघा	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
182-बाँकीपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पटना सदर
183-कुम्हार	विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना
184-पटना साहिब	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी
185-फतुहा	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पटना सिटी
186-दानापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर
187-मनेर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दानापुर
188-फुलवारी (अ०जा०)	अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना
189-मसौढ़ी (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी
190-पालीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
191-बिक्रम	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पालीगंज

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
192-संदेश	अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर
193-बड़हरा	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, भोजपुर
194-आरा	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, आरा सदर
195-अगिआँव (अ०जा०)	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पीरो
196-तरारी	अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो
197-जगदीशपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर
198-शाहपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जगदीशपुर
199-ब्रह्मपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, डुमराँव
200-बक्सर	अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर
201-डुमराँव	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमराँव
202-राजपुर (अ०जा०)	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बक्सर
203-रामगढ़	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, मोहनिया
204-मोहनिया (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनिया
205-भभुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ
206-चैनपुर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, भभुआ
207-चेनारी (अ०जा०)	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, रोहतास
208-सासाराम	अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम
209-करगहर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम
210-दिनारा	उप समाहर्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज
211-नोखा	उप विकास आयुक्त, रोहतास
212-डिहरी	अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी
213-काराकाट	अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज
214-अरवल	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल
215-कुर्था	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अरवल
216-जहानाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
217-घोसी	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जहानाबाद
218-मखदुमपुर (अ०जा०)	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद
219-गोह	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर
220-ओबरा	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दाउदनगर
221-नवीनगर	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, औरंगाबाद
222-कुटुम्बा (अ०जा०)	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद
223-औरंगाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद
224-रफीगंज	उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
225-गुरुआ	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया
226-शेरघाटी	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी
227-इमामगंज (अ०जा०)	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, गया
228-बाराचट्टी (अ०जा०)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, शेरघाटी, गया
229-बोधगया (अ०जा०)	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, गया
230-गया टाउन	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया
231-टिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, गया
232-बेलागंज	उप विकास आयुक्त, गया
233-अतरी	अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी, गया
234-वजीरगंज	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गया सदर
235-रजौली (अ०जा०)	अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली
236-हिसुआ	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, नवादा
237-नवादा	अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा
238-गोविन्दपुर	उप विकास आयुक्त, नवादा
239-वारिसलीगंज	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, नवादा
240-सिकन्दरा (अ०जा०)	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, जमुई
241-जमुई	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
242-झाझा	उप विकास आयुक्त, जमुई
243-चकाई	भूमि सुधार उप समाहर्ता, जमुई

आदेश से
सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated 06th October, 2023/14 Asvina, 1945 (Saka)

No. 434/ES-I/BR-LA/2023(1)—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/BR-LA/2015(1) dated 03rd November, 2014 as amended from time to time, the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of Bihar, the officers of the State Government specified in column (2) of the Table below as the Returning Officers for the Assembly Constituencies in the State of Bihar as specified in the column (1) of the said Table against such officer of the State Government.

TABLE

Number and name of Assembly Constituency	Returning Officer
1	2
1-Valmiki Nagar	Director Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Bettiah
2-Ramnagar (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Bagaha
3-Narkatiaganj	Sub Divisional Officer, Narkatiaganj
4-Bagaha	Sub Divisional Officer, Bagaha
5-Lauriya	Additional Collector, Departmental Enquiry, West Champaran, Bettiah
6-Nautan	Deputy Collector, Land Reform, Bettiah
7-Chanpatia	Deputy Development Commissioner, West Champaran, Bettiah
8-Bettiah	Sub Divisional Officer, Bettiah
9-Sikta	Deputy Collector, Land Reform, Narkatiaganj
10-Raxaul	Sub Divisional Officer, Raxaul
11-Sugauli	Sub Divisional Officer, Motihari Sadar
12-Narkatia	Deputy Collector, Land Reform, Raxaul
13-Harsidhi (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Areraj
14-Govindganj	Sub Divisional Officer, Areraj
15-Kesaria	Deputy Development Commissioner, East Champaran, Motihari
16-Kalyanpur	Deputy Collector, Land Reform, Chakia
17-Pipra	Sub Divisional Officer, Chakia
18-Madhuban	Sub Divisional Officer, Pakridayal
19-Motihari	Deputy Collector, Land Reform, Motihari Sadar
20-Chiraia	Deputy Collector, Land Reform, Sikrahna
21-Dhaka	Sub Divisional Officer, Sikrahna
22-Sheohar	Sub Divisional Officer, Sheohar
23-Riga	Deputy Collector, Land Reform, Sitamarhi Sadar
24-Bathnaha (SC)	Additional Collector, Departmental Enquiry, Sitamarhi
25-Parihar	Deputy Development Commissioner, Sitamarhi
26-Sursand	District Panchayat Raj Officer, Sitamarhi
27-Bajpatti	Sub Divisional Officer, Pupri
28-Sitamarhi	Sub Divisional Officer, Sitamarhi Sadar
29-Runnisaidpur	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Sitamarhi
30-Belsand	Sub Divisional Officer, Belsand
31-Harlakhi	Deputy Collector, Land Reform, Benipatti
32- Benipatti	Sub Divisional Officer, Benipatti
33-Khajauli	Sub Divisional Officer, Jaynagar
34-Babubarhi	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Madhubani

Number and name of Assembly Constituency	Returning Officer
1	2
35-Bisfi	Deputy Development Commissioner, Madhubani
36-Madhubani	Sub Divisional Officer, Sadar Madhubani
37-Rajnagar (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Jhanjharpur
38-Jhanjharpur	Sub Divisional Officer, Jhanjharpur
39-Phulparas	Sub Divisional Officer, Phulparas
40-Laukaha	Deputy Collector, Land Reform, Phulparas
41-Nirmali	Sub Divisional Officer, Nirmali
42-Pipra	Deputy Collector, Land Reform, Supaul
43-Supaul	Sub Divisional Officer, Supaul
44-Triveniganj (SC)	Sub Divisional Officer, Triveniganj
45-Chhatapur	Sub Divisional Officer, Birpur
46-Narpatganj	Deputy Collector, Land Reform, Forbesganj
47-Raniganj (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Araria
48-Forbesganj	Sub Divisional Officer, Forbesganj
49-Araria	Sub Divisional Officer, Araria
50-Jokihat	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Araria
51-Sikti	Deputy Development Commissioner, Araria
52-Bahadurganj	Deputy Collector, Land Reform, Kishanganj
53-Thakurganj	Deputy Development Commissioner, Kishanganj
54-Kishanganj	Sub Divisional Officer, Kishanganj
55-Kochadhaman	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Kishanganj
56-Amour	Deputy Collector, Land Reform, Baisi
57-Baisi	Sub Divisional Officer, Baisi
58-Kasba	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Purnia
59-Banmankhi (SC)	Sub Divisional Officer, Banmankhi
60-Rupauli	Deputy Collector, Land Reform, Dhamdaha
61-Dhamdaha	Sub Divisional Officer, Dhamdaha
62-Purnia	Sub Divisional Officer, Sadar Purnia
63-Katihar	Sub Divisional Officer, Katihar
64-Kadwa	Deputy Collector, Land Reform, Barsoi
65-Balrampur	Sub Divisional Officer, Barsoi
66-Pranpur	Deputy Development Commissioner, Katihar
67-Manihari (ST)	Sub Divisional Officer, Manihari
68-Barari	Deputy Collector, Land Reform, Katihar
69-Korha (SC)	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Katihar
70-Alamnagar	Deputy Collector, Land Reform, Udakishunganj
71-Bihariganj	Sub Divisional Officer, Udakishunganj
72-Singheshwar (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Madhepura
73-Madhepura	Sub Divisional Officer, Madhepura
74-Sonbarsha (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Saharsa
75-Saharsa	Sub Divisional Officer, Sadar Saharsa
76-Simri Bakhtiarpur	Sub Divisional Officer, Simri Bakhtiarpur
77-Mahishi	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Saharsa
78-Kusheshwar Asthan (SC)	Sub Divisional Officer, Biraul
79-Gaura Bauram	Deputy Collector, Land Reform, Biraul
80-Benipur	Sub Divisional Officer, Benipur
81-Alinagar	Deputy Collector, Land Reform, Benipur

Number and name of Assembly Constituency	Returning Officer
1	2
82-Darbhanga Rural	Sub Divisional Officer, Sadar Darbhanga
83-Darbhanga	Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Darbhanga
84-Hayaghat	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Darbhanga
85-Bahadurpur	Additional Collector, Departmental Enquiry, Darbhanga
86-Keoti	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Darbhanga
87-Jale	Deputy Development Commissioner, Darbhanga
88-Gaighat	Sub Divisional Officer, East Muzaffarpur
89-Aurai	District Panchayat Raj Officer, Muzaffarpur
90-Minapur	Director National Employment Programme, District Rural Development Agency, Muzaffarpur
91-Bochahan (SC)	District Supply Officer, Muzaffarpur
92-Sakra (SC)	Deputy Collector, Land Reform, East Muzaffarpur
93-Kurhani	Deputy Collector, Land Reform, West Muzaffarpur
94-Muzaffarpur	Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Muzaffarpur
95-Kanti	Additional Collector, Disaster Management, Muzaffarpur
96-Baruraj	Deputy Development Commissioner, Muzaffarpur
97-Paroo	Sub Divisional Officer, West Muzaffarpur
98-Sahebganj	District Land Acquisition Officer, Muzaffarpur
99-Baikunthpur	Deputy Collector, Land Reform, Gopalganj
100-Barauli	Deputy Development Commissioner, Gopalganj
101-Gopalganj	Sub Divisional Officer, Gopalganj
102-Kuchaikote	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Gopalganj
103-Bhore (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Hathua
104-Hathua	Sub Divisional Officer, Hathua
105-Siwan	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Siwan
106-Ziradei	Deputy Collector, Land Reform, Siwan
107-Darauli (SC)	District Panchayat Raj Officer, Siwan
108-Raghunathpur	Sub Divisional Officer, Siwan
109-Daraunda	Deputy Development Commissioner, Siwan
110-Barharia	District Land Acquisition Officer, Siwan
111-Goriakothi	Deputy Collector, Land Reform, Maharajganj
112-Maharajganj	Sub Divisional Officer, Maharajganj
113-Ekma	District Panchayat Raj Officer, Saran
114-Manjhi	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Chapra
115-Baniapur	Deputy Development Commissioner, Saran
116-Taraiya	Deputy Collector, Land Reform, Marhaura
117-Marhaura	Sub Divisional Officer, Marhaura
118-Chapra	Sub Divisional Officer, Sadar Chapra
119-Garkha (SC)	District Land Acquisition Officer, Saran, Chapra
120-Amnour	Director Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Saran, Chapra
121-Parsa	Deputy Collector, Land Reform, Sonapur
122-Sonapur	Sub Divisional Officer, Sonapur
123-Hajipur	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Vaishali, Hajipur
124-Lalganj	Deputy Collector, Land Reform, Hajipur
125-Vaishali	Deputy Development Commissioner, Vaishali, Hajipur
126-Mahua	Sub Divisional Officer, Mahua

Number and name of Assembly Constituency	Returning Officer
1	2
127-Raja Pakar (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Mahnar
128-Raghopur	Sub Divisional Officer, Hajipur
129-Mahnar	Sub Divisional Officer, Mahnar
130-Patepur (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Mahua
131-Kalyanpur (SC)	Sub Divisional Officer, Samastipur
132-Warisanagar	Deputy Collector, Land Reform, Samastipur
133-Samastipur	Deputy Development Commissioner, Samastipur
134-Ujiarpur	Sub Divisional Officer, Dalsingsarai
135-Morwa	Deputy Collector, Land Reform, Patori
136-Sarairanjan	District Land Acquisition Officer, Samastipur
137-Mohiuddinnagar	Sub Divisional Officer, Patori
138-Bibhutipur	Deputy Collector, Land Reform, Dalsingsarai
139-Rosera (SC)	Sub Divisional Officer, Rosera
140-Hasanpur	Deputy Collector, Land Reform, Rosera
141-Cheria Bariarpur	Sub Divisional Officer, Manjhaule
142-Bachhwara	Deputy Collector, Land Reform, Teghra
143-Teghra	Sub Divisional Officer, Teghra
144-Matihani	Deputy Collector, Land Reform, Begusarai
145-Sahebpur Kamal	Sub Divisional Officer, Balia
146-Begusarai	Sub Divisional Officer, Begusarai
147-Bakhri (SC)	Sub Divisional Officer, Bakhri
148-Alauli (SC)	Sub Divisional Officer, Khagaria
149-Khagaria	Deputy Collector, Land Reform, Khagaria
150-Beldaur	Deputy Collector, Land Reform, Gogri
151-Parbatta	Sub Divisional Officer, Gogri
152-Bihpur	Deputy Collector, Land Reform, Naugachia
153-Gopalpur	Sub Divisional Officer, Naugachia
154-Pirpainti (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Kahalgaon
155-Kahalgaon	Sub Divisional Officer, Kahalgaon
156-Bhagalpur	Sub Divisional Officer, Sadar Bhagalpur
157-Sultanganj	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Bhagalpur
158-Nathnagar	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Bhagalpur
159-Amarpur	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Banka
160-Dhoraiya (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Banka
161-Banka	Sub Divisional Officer, Banka
162-Katoria (ST)	District Panchayat Raj Officer, Banka
163-Belhar	Deputy Development Commissioner, Banka
164-Tarapur	Sub Divisional Officer, Tarapur
165-Munger	Sub Divisional Officer, Sadar Munger
166-Jamalpur	Deputy Collector, Land Reform, Sadar Munger
167-Suryagarha	Deputy Collector, Land Reform, Lakhisarai
168-Lakhisarai	Sub Divisional Officer, Lakhisarai
169-Sheikhpura	Sub Divisional Officer, Sheikhpura
170-Barbigha	Deputy Collector, Land Reform, Sheikhpura
171-Asthawan	Deputy Collector, Land Reform, Biharsharif
172-Biharsharif	Sub Divisional Officer, Biharsharif
173-Rajgir (SC)	Sub Divisional Officer, Rajgir
174-Islampur	Deputy Collector, Land Reform, Hilsa
175-Hilsa	Sub Divisional Officer, Hilsa

Number and name of Assembly Constituency	Returning Officer
1	2
176-Nalanda	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Nalanda
177-Harnaut	Deputy Development Commissioner, Nalanda
178-Mokama	Sub Divisional Officer, Barh
179-Barh	Deputy Collector, Land Reform, Barh
180-Bakhtiarpur	Deputy Development Commissioner, Patna
181-Digha	Sub Divisional Officer, Patna Sadar
182-Bankipur	Deputy Collector, Land Reform, Patna Sadar
183-Kumhrar	Special Officer Rationing, Patna
184-Patna Sahib	Sub Divisional Officer, Patna City
185-Fatuha	Deputy Collector, Land Reform, Patna City
186-Danapur	Sub Divisional Officer, Danapur
187-Maner	Deputy Collector, Land Reform, Danapur
188-Phulwari (SC)	Additional District Magistrate, Supply, Patna
189-Masaurhi (SC)	Sub Divisional Officer, Masaurhi
190-Paliganj	Sub Divisional Officer, Paliganj
191-Bikram	Deputy Collector, Land Reform, Paliganj
192-Sandesh	Sub Divisional Officer, Arrah Sadar
193-Barhara	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Bhojpur
194-Arrah	Deputy Collector, Land Reform, Arrah Sadar
195-Agiaon (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Piro
196-Tarari	Sub Divisional Officer, Piro
197-Jagdishpur	Sub Divisional Officer, Jagdishpur
198-Shahpur	Deputy Collector, Land Reform, Jagdishpur
199-Brahampur	Deputy Collector, Land Reform, Dumraon
200-Buxar	Sub Divisional Officer, Buxar
201-Dumraon	Sub Divisional Officer, Dumraon
202-Rajpur (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Buxar
203-Ramgarh	Deputy Collector, Land Reform, Mohania
204-Mohania (SC)	Sub Divisional Officer, Mohania
205-Bhabua	Sub Divisional Officer, Bhabua
206-Chainpur	Deputy Collector, Land Reform, Bhabua
207-Chenari (SC)	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Rohtas
208-Sasaram	Sub Divisional Officer, Sasaram
209-Kargahar	Deputy Collector, Land Reform, Sasaram
210-Dinara	Deputy Collector, Land Reform, Bikramganj
211-Nokha	Deputy Development Commissioner, Rohtas
212-Dehri	Sub Divisional Officer, Dehri
213-Karakat	Sub Divisional Officer, Bikramganj
214-Arwal	Sub Divisional Officer, Arwal
215-Kurtha	Deputy Collector, Land Reform, Arwal
216-Jehanabad	Sub Divisional Officer, Jehanabad
217-Ghosi	Deputy Collector, Land Reform, Jehanabad
218-Makhdumpur (SC)	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Jehanabad
219-Goh	Sub Divisional Officer, Daudnagar
220-Obra	Deputy Collector, Land Reform, Daudnagar
221-Nabinagar	Deputy Collector, Land Reform, Aurangabad
222-Kutumba (SC)	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Aurangabad
223-Aurangabad	Sub Divisional Officer, Aurangabad

Number and name of Assembly Constituency	Returning Officer
1	2
224-Rafiganj	Deputy Development Commissioner, Aurangabad
225-Gurua	Director Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Gaya
226-Sherghati	Sub Divisional Officer, Sherghati
227-Imamganj (SC)	Additional Collector, Departmental Enquiry, Gaya
228-Barachatti (SC)	Deputy Collector, Land Reform, Sherghati, Gaya
229-Bodh Gaya (SC)	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Gaya
230-Gaya Town	Sub Divisional Officer, Sadar Gaya
231-Tikari	Sub Divisional Officer, Tikari, Gaya
232-Belaganj	Deputy Development Commissioner, Gaya
233-Atri	Sub Divisional Officer, Neemchak Bathani, Gaya
234-Wazirganj	Deputy Collector, Land Reform, Gaya Sadar
235-Rajauli (SC)	Sub Divisional Officer, Rajauli
236-Hisua	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Nawada
237-Nawada	Sub Divisional Officer, Nawada
238-Gobindpur	Deputy Development Commissioner, Nawada
239-Warsaliganj	Deputy Collector, Land Reform, Nawada
240-Sikandra (SC)	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Jamui
241-Jamui	Sub Divisional Officer, Jamui
242-Jhajha	Deputy Development Commissioner, Jamui
243-Chakai	Deputy Collector, Land Reform, Jamui

By Order,
SUJEET KUMAR MKSHRA,
SECRETARY.
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 825-571+50-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>